

## Associated Alcohols & Breweries Ltd.

Registered / Corporate Office:

4th Floor, BPK Star Tower, A.B. Road, Indore - 452 008, (M.P.) India Contact No. +91 731 4780400/490

Fax: +91 731 4780410 E-mail: info@aabl.in

CIN: L15520MP1989PLC049380

11th November, 2020

To,
The Listing Department
National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, C-1, G Block,
Bandra Kurla Complex,
Mumbai - 400051
NSE Symbol: ASALCBR

To,
The Department of Corporate Services
BSE Limited
PJ Tower, Dalal Street,
Mumbai - 400001
Scrip Code: 507526

Sub: Submission of Newspaper clipping published pursuant to provisions of Regulation 47 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015.

Dear Sir,

We are enclosing herewith the Newspaper clipping of the Unaudited Financial Results for the quarter and half year ended 30th September, 2020 published in the "Financial Express" and "Naidunia" newspapers on 11th November, 2020.

This is for your information and record.

Thanking you,

For Associated Alcohols & Breweries Limited

Sumit Jaitely

Company Secretary & Compliance Officer

INDORE REP

Encl: As above

JYOTINGAMYA ENTERPRISES LTD Regd. Office: Office No. 3, IInd Floor, P-37

38. Gomti Complex, Pandav Nagar,

Mayur Vihar, Phase-1, East Delhi- 110091

CIN: L24100DL1986PLC234423

Ph. +91-9205562494.

Email: jyotirgamysenterprises@gmail.com

Notice

Pursuant to Regulation 29 read with Regulation

47 of SEBI (Listing Obligation and Disclosure

Requirements) Regulations, 2015, that the

meeting of the Board of Directors of th

Jyotirgamya Enterprises Limited will be held

on Friday, 13th November, 2020 at the

Registered Office of the Company, inter alie

consider, discuss and if thought fit to approve

the Audited Financial Results for the quarte

and year ended on 30" September, 2020 (t

Any other matter with the permission of t

Chair and Majority of Directors, The trading

window for dealing in securities of the

Company will remain closed for all specifie

persons for the abovementioned purpose t

the expiry of 48 hours after the declaration

The said notice may be accessed at th

Company's website at http:

www.jeltrade.com or at Slock Exchange

website https://www.bseindle.com/stock

share-price/jyotirgamya-enterprises-kd/jel

-For Jyotirgamya Enterprises Limited

approval of financial results.

transact the following businesses (a)

Website- www.jelglobe.com

REGISTERED OFFICE: 3" FLOOR, MIRAJ CAMPUS, UPER KI ODEN, NATHOWARA, RAISAMAND, RAIASTHAN, INDIA, PIN-313301 CIN: L74950RJ1985PLC003275 Tel.: 1800 120 3699. Email id: ankita mata@mirajgroup.in. Website: www.asiapackitd.com Extract of Statement of Unaudited Financial Results for the Quarter and Half Year Ended 30 September, 2020 Rs. in Lacs except EPS Had Year Ended Year Ended Quarter Ended Sep-20 Jun-20 Sep-19 Sep-20 Sep-19 Mar-20 Particulars Unaudited Unaudited Unaudited Unaudited Unaudited Audited 2.40 2.40 4.95 4.80 9.60 otal acome from Operations 16.67 19.36 31.84 32.46 8.10 Net Prolin / (Last) for the period (before for, Except ishall and/or Extraordinary Items 8.10 16.67 19.36 31.84 32.46 Net Profit / Basic) for the period before tax (ofter Exceptional and/or Exceptional Americans). 11.26 21.09 21.85 13.84 10.49 12.74 (1.10)their Product (Lons) for the period ofter tax (after Expensional and/or Extraordinary items) and Comprehensive Income for the period (Comprehen Profit: I less) for the period 20.32 12.82 (1.17)12.93 13.99 after taxi and Other Comprehensive locume (after taxi) 263.74 263.74 263.74 263.74 263.74 263.74 Equity Share Capital Between the aducting Remarks to the arrest at those in this audited tailings the still 1593.16 lamps so there (LPS) of its 30% each 0.52 0.40 0.48 0.80 0.83

0.52 0.40 0.48 0.80 0.83 1. The above is an extract of the detailed formal of Quarterly / Half Yearly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements)
Regulations, 2015. The full format of the Quarterly / Half Yearly Financial Results are available on the Stock Exchange websites viz. www.bseindia.com and on the Company's website viz. www.asiapackitd.com 2. The above unaudited Financial Results for the Quarter and Half Year ended 30th September, 2020 have been reviewed by Audit Committee and approved by Board of Directors at their meeting held on 10th November, 2020.

FOR ASIA PACK LIMITED REVANT PURBIA DIRECTORICEO

Particulars

Total Income From Operations

Net Profit ( Loss ) for the period

Net Profit/(Loss ) for the period before tax

4 Net Profit/(Loss ) for the period after tax

6 Total Comprehensive income for the period

(Comprising Profit after Tax and Other

5 Share of Profit/(Loss) of Associates

8 | Earning per share ( of ₹ 1/- each ) :

website www.jaykaventerprises.com.

Basic / Diluted Per Share \*

Comprehensive Income )

Not Annualised )

on 10th November, 2020.

Date : 10th November, 2020

1 Total Income from Operations

6 Paid up Equity Share Capital

8 Net worth

11 Debt Equity Ratio

1. Basic:

9, 2020.

Place: New Delhi

Registered Office

Corporate Office

www.religarefinvest.com

Date: November 09, 2020

2. Diluted:

7 Reserves (excluding Revaluation Reserve)

9 Paid up Debt Capital / Outstanding Debt

12 Earnings Per Share (of Rs. 10/- each)

13 | Capital Redemption Reserve

15 Debt Service Coverage Ratio

14 Debenture Redemption Reserve

16 Interest Service Coverage Ratio

website (www.religarefinvest.com)

10 Outstanding Redeemable Preference Shares

Place : Kampur

No.

Notes:

(after Exceptional and Extraordinary items.)

(after Exceptional and Extraordinary Items.)

(before Tax, Exceptional and Extraordinary Items.)

Equity Share capital ( face Value \* 1/- Por Share )

Income Tax liability if any, shall be accounted for at the year and.

RELIGARE FINVEST LIMITED

No.

Place: Nathdwara Date: 10.11.2020

Public Notice Yogindera Finance Limited a NBFC company having Corporate Identification Number (CIN) U74899HR1994PTC056507 and

registered office at YFC House B-14, Infocity, Sector -34, Gurgaon -122001 has been reconstituted as Private Limited Company and renamed as DKY Finance Private Limited

NOTICE Before the Central Government Northern Region In the matter of the Companies Act, 2013, Section 13(4) of Companies Act, 2013 and Rule

AND In the matter of MANASAVI AGRO FARM & RESEARCH PRIVATE LIMITED having its registered office at E - 10, Ground Floor, Javaniar Park, Laxmi Nagar, Dami-110092.

30(6) (a) of the Companies (Incorporation)

Notice is hereby gover to the General Public that the company proposes to make application to the Central Government under section 13 of the Companies Act, 2013 seeking confirmation of alteration of the Meniorandom of Association of the Company in terms of the special resolution passed at the Extra Ordinary General Meeting held on 16" October, 2020 to enable the company to change its Registered office from the "The State of NCT of Delhi" to "The State of Uttarakhand

Any person whose kilerest wlikery to be affected. by the proposed change of the registered office. of the company may deliver or cause to be delivered or send by registered post of his/her polections supported by an affidavil stating the nature of higher interest and grounds of occosition to the Registrar of Companies, at 4th Floor, IFCI Tower, 61, Nehru Pision, New Duth --110019 within Fourteen days from the date of publication of this notice with a copy of the applicant company at its registered office at the address mentioned below.

Registered Office: E - 10, Ground Floor, Jawahar Park, Laxmi Nagar, Delhi-110092 For and on behalf of the Applicant 3di-Gepal Joshi

Director Dated: 07" November, 2820 DIN: 92395437

Form No. URC-2 Advertisement giving notice about registration under Part I of

Chapter XXI [Pursuant to section 374(b) of the companies Act, 2013 and rule 4(1) of the companies (Authorised to Register) Rules, 2014]

Notice is hereby given that in pursuance of sub-section (2) of section 366 of the Companies Act, 2013, an application has been made to the Registrar at 4th Floor, IFCI Tower, Nehru Place, New Delhi-110019 that Nuclear Medsystems India LLP an LLP may be registered under Part I of Chapter XXI of the Companies Act 2013, as a company limited by shares. 2. The principal objects of the proposed company are as follows:

Purchase, sale and maintenance of Gamma Camera Systems and other medical equipment used within the Nuclear medicine industry. 3. A copy of the draft memorandum and

articles of association of the proposed company may be inspected at the office at 4/114, DDA Flats, J.J. Colony, New Delhi, Delhi-110065. 4. Notice is hereby given that any

person objecting to this application may communicate their objection in writing to the Registrar at 4th Floor, IFCI Tower, Nehru Place, New Delhi-110019, within twenty-one days from the date of publication of this notice, with a copy to the company at it registered office. Dated this 11th day of November, 2020.

For Nuclear Medsystems India LLP Sudhir Kumar DPIN: 08173865

## (Designated Partner) Booking 4 Advertisement B 9 9-0 2 ~ 0 E

For

ASIA PACK LIMITED

Pursuant to Rule 30 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014] Before the Central Government, Regional Director, Northern Region, New Delhi in the matter of sub-suction(4) of Section 10

in the matter of DIAMOND REALCON PRIVATE LIMITED(CIN: U70101DL2010 PTC210279) having its Registered Office at Fint No. 1501A, Hemkust Chembers.

power delegated to Regional Director under Section 13 of the Companies Act, 2013 seeking confirmation of alteration of the Memorandum of Association of the Company so terms of the special resolution passed at enable this Company to change its Registered Office Irom "National Capital Territory (NCT) of Dethi to "The State of Haryana".

Any person whose interest is likely to be Office at the address merelioned above.

Form No. INC-26 Form No. INC-26 (Pursuant to Rule 30 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014] Batore the Central Government, Regional Director, Northern Region, New Dethi in the matter of sub-section(4) of Section 13 of Companies Act. 2013 and clause (a) of of Companies Act, 2013 and clause (a) of

> (incorporation) Rules, 2014 in the matter of HITECH PROPCON PRIVATE LIMITED (CIN:U702000L2010) PTC218354) having its Registered Office at Flat No. 1501A. Hemkunt Chambers, 89 Nehru Place, New Delhi-110019

sub-rule (5) of Rule 30 of this Companies

... Applicant Notice is hereby given to the General Public that the Company proposas to make an application to the Central Government, power delegated to Regional Director under Section 13 of the Companies Act, 2013 seeking confirmation of alteration of the Menorandum of Association of the Company in terms of the special resolution passed at the Extra-Ordinary General Meeting of the Company held on 22nd October, 2023 to NCT) of Delhi" to "The State of Haryana".

Any person whose interest is skely to be affected by the proposed change of the Registered Office of the Company may neiver either on the MCA-21 portal (www. mca.gov.in) by filing investor complaint registered post of his/her objections supported by an affidavit slating the nature of his/her interest and grounde of opposition to the Regional Director, Northern Region at the actinus B-2 Wing, 62nd Floor, Dain: 110003 within fourteen days from the date of publication of this notice with a conto the Applicant Company at its Registres Office at the address mentioned above. For and on behalf of

Date: 11.11.2020 Tarun Singhal (Director) Date: 11.11.2020 Tarun Singhal (Director) DIN: 03418308 | Place: New Delts

CONSOLIDATED

Cuarter Ended | Half Year Ended | Quarter Ended

30.09.2020

(Unaudited)

15.80

11.22

11.22

381.85

653.62

371.35

For and on behalf of the Board of Directors

1.76

Dale 19/11/2020

Hero

Folio No.

HML0067926

Value Re.2i-) in their farrour!

New Delhi

Shareholders

Name

HOMA! SAM

KARKARIA.

SAM NARIMAN

KARKARIA

Regd Office: 4th Floor, BPK Star Tower, A.B. Road, Indore - 452008 (M.P.) nail: investorralations@aabl in Website: www.asaociatedalcohols.com, Ph. 9731-4780400

Certificate No. of

Shares

250

20

05

No (s)

511878

1403965

233589

340304





S No.	Particulars	Quarter Ended 30.09.2020 (Unaudited)	Quarter Ended 30.09.2019 (Unaudited)	Year Ended 31.03.2020 (Audited)
1	Total income from operations	10430.13	12308.13	53827.78
2	Net profit / (loss) for the period (before Tax, Exceptional and / or Extraordinary items)	1768.12	965.34	6.371.66
3	Net profit / (loss) for the period Before Tax, (after Exceptional and / or Extraordinary items)	1768.12	965.34	6.371.66
4	Net profit / (loss) for the period after Tax, (after Exceptional and / or Extraordinary items)	1316.93	1106.12	4933.62
5	Total Comprehensive income for the period (Comprising Profit / Itoss) for the period (after Tax) and other Comprehensive Income (after Tax))	1315.56	1112.68	4839.14
6	Equity Share Capital	1807.92	1807.92	1807.92
7	Reserves (excluding Revaluation Reserves) as shown in the Balance Sheet of previous year			17719.13
8	Earning Per Share (before extraordinary item) (of ₹ 10/- each) Basic: Diluted:	7.28 7.28	6.12 6.12	27.29 27.29

meeting held on 10th November, 2020. For: Associated Alcohols & Breweries Ltd.

Date: 10.11.2020

Tushar Bhandari, Whole Time Director DIN: 03583114

IndiaShelter Home Loans

INDIA SHELTER FINANCE CORPORATION LIMITED CIN: U65922HR1998PLC042782 Regd. Office: 6th Floor, Plot No.15, Institutional Area, Sector 44, Gurgaon, Haryana-122002

### THE SIX MONTHS ENDED 30th SEPTEMBER, 2020

[Regulation 52 (8), read with Regulation 52 (4), of the SEBI (LODR) Regulations, 2015] (All amount in Rupees lakhs unless otherwise stated)

SI. No.	Particulars	Six months ended 30 September 2020 (Unaudited)	Previous six months ended 30 Sept. 2019 (Unaudited)	ended 31 March 2020 (Audited)
1.	Total Income from Operations	13,240.52	10,225.93	22,906.06
2	Other Income	123,90	7.49	84.61
3.	Nat Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	3,516.93	3,264.06	6,383.88
4.	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	3,516.93	3,264.06	6,383.88
5.	Net Profil / (Loss) for the period after tex	2,742.91	2,228,91	4691.14
6.	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after lax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	2,742.84	2,232.39	4,690.98
7.	Pakt up Equity Share Capital	4,283.02	4,265.49	4,283.02
8/	Reserves (excluding Revaluation Reserve)	83,381.75	77,996.57	80,545.35
9.	Nal worls	87,684,77	82,262.06	84,828.37
10.	Paid up Debt Capital / Outstanding Debt	1,28,454.48	72,799.46	93,460,36
11	Earnings Per Share (of Face Value Rs 10/- each) (for continuing and discontinued operations) *-  • Basic:  • Dauted:	6.40° 8.31°	5.23° 5.14°	10.99 10.80
12	Debenture Redemption Reserve			*
13.	Debt Equity Ratio	1.38	0.88	1.10
14.	Debt Service Coverage Ratio	0.36	0.62	0.69
15.	Interest Service Coverage Rabo	1.72	2.14	1,67

"EPS for six months not annualized.

b) The above is an extract of the detailed format of half yearly financial results for the six months ended on 30 September 2020 filed with the Stock Exchanges under Regulation 52 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the half yearly financial results for the six months ended on 30 September, 2020 is available on the website of the Stock Exchange, BSE (www.bseindia. com) and the website of the company (www.indiashelter.in) and at the registered office of the Company at India Shelter Finance Corporation Limited, 8th Floor, Plot No.15, Institutional Area, Sector 44, Gurgaon,

Disclosure in compliance with Regulation with Regulation 52 (4) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 for the six months ended 30 September 2020. c) For the items referred in sub-clauses (a), (b), (d) and (e) of the Regulation 52 (4) of the SEBI (Listing and

Stock Exchange (BSE) and can be accessed on the www.bseindia.com. d) Credit rating of the company is A (Stable) as per rating certification dated 5 March 2020 issued by ICRA.

e) Asset Cover ratio: 1,10 times f) Previous due date for the payment of interest on non-convertible debt securities is as below:

ISIN	Due Date
INE922K07047	30 April 2020
INE922K07047	31 May 2020
INE922K07047	30 June 2020
INE922K07047	31 July 2020
INE922K07047	31 August 2020
INE922K07047	30 September 2020

h) The financial results for the six months ended 30 September 2020 have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at its meeting held on 09 November 2020.

i) The Company is engaged primarily in the business of financing and accordingly there are no separate reportable segments as per Ind AS 108 dealing with Operating Segment.

For INDIA SHELTER FINANCE CORPORATION LIMITED Anii Mehta

1860-266-4111

New Delhi

SMS 'LOANS' to 575758 | customerservice@religare.com

For Religare Finvest Limited

Chairperson cum Managing Director

Sd/

Dr. Rashmi Saluja

Place: Udalpur

Date: 09 November 2020

DIN: 02132315

sub-rule (5) of Rule 30 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014 89 Nehru Place, New Delhi-110019

DBM: 02423236

30.09.2020

(Unaudited

8.30

3.61

18.8

8.61

(21.25)

371.35

(0.06)

Regd. Office: First Floor, P-14, 45/90, P-Block, Connaught Place, New Delhi - 110001, India

**Particulars** 

2 Net Profit / (Loss) for the period (before Tax and Exceptional items)

3 Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional items)

5 Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss)

for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))

Exchange (BSE) and can be accessed on the URL (www.bseindia.com).

(5) Formula for Debt/Equity ratio is Total Debt/ Total Shareholders fund.

REPAYMENT OF DEPOSITS/ DISCHARGE OF LIABILITY BY THE COMPANY.

RELIGARE FINVEST LIMITED- CIN: U74999DL 1995PLC064132

4 Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional Items)

Jaykay Enterprises Limited

CIN: L99999UP1961PLC001187

Regd. Office: Kamla Tower, Kanpur 208 001 (India) Ph. No.: +91 512 2371478-81 Fax: +91 512 2332665; website www.jaykayenterprises.com; Email: prabhat mishra@jkcement.com

Extract of Statement of Standalone and Consolidated Un-audited Financial Results for the Quarter and Half Year ended 30th September, 2029

STANDALONE

Quarter Ended Haif Year Ended Quarter Ended

30.09.2020

(Unaudited)

15.80

11.22

11.22

11.22

272.66

371,35

1. The above is an extract of the detailed format of Unaudited Standalone and Consolidated Financial Results for quater and half year ended 30th

2. The above unaudited Financial Results, have been reviewed by the Audit Committee have been approved by the Board of Directors at its meeting held

Statement of Standalone Unaudited Financial Results For The Half Year Ended September 30, 2020

(1) The above is an extract of the detailed format of half year financial results filed with the Stock Exchange under Regulation 52 of

(2) For the items referred in sub-clauses (a), (b), (d) and (e) of the Regulation 52 (4) of the Securities and Exchange Board of India

(3) Pursuant to Clause 52 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations,

(4) There is no Privately Placed Unsecured Subordinated Redeemable Non-Convertible Debentures due for redemption during the

THE COMPANY IS HAVING A VALID CERTIFICATE OF REGISTRATION DATED NOVEMBER 10, 2006 ISSUED BY THE RESERVE BANK OF

INDIA (RBI) UNDER SECTION 45 IA OF THE RESERVE BANK OF INDIA ACT, 1934. HOWEVER, THE RBI DOES NOT ACCEPT ANY

RESPONSIBILITY OR GUARANTEE ABOUT THE PRESENT POSITION AS TO THE FINANCIAL SOUNDNESS OF THE COMPANY OR FOR THE

CORRECTNESS OF ANY OF THE STATEMENTS OR REPRESENTATIONS MADE OR OPINIONS EXPRESSED BY THE COMPANY AND FOR

First Floor, P-14, 45/90, P-Block, Connaught Place, New Delhi -110001, India | Phone: +91 - 11 - 40021400 | Fax No.: +91-11-40021401

501, 5th Floor, Salcon Rasvilas, Saket District Centre, New Delhi -110017, India | Phone :+ 91 -11 -61405300

(6) Previous period figures have been regrouped wherever necessary to conform to the current period presentation.

the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format

of the half year financial results are available on the website of the Stock Exchange (www.bseindia.com) and the Company's

(Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the pertinent disclosures have been made to the Stock

2015, a limited review of financial results for the half year ended September 30, 2020 has been carried out by the Statutory Auditors. The Unaudited standalone results for the half year ended September 30, 2020 have been reviewed and recommended by the Audit Committee and approved by the Board of Directors ('the Board') at its meetings held on November

September, 2020 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of SEBI (Listing and other Disclosure Requirements ) Regulation, 2015. The Full

format of Quarterly and Half year Financial Results are available on the Bombay Stock Exchange website www.bseindia.com and on the Company's

0.73

... Applicant Notice is hereby given to the General Public that the Company proposes to make an application to the Central Government the Extra-Ordinary General Meeting of the Company held on 22nd October, 2020 to

affected by the proposed change of the Registered Office of the Company may deliver either on the MCA-21 portal (www. mca.gov.in) by filing investor complaint form or cause to be delivered or send by registered post of misther objections. supported by an affidavil stating the nature of higher interest and grounds of opposition to the Regional Director, Northern Region at the address 9-2 Wing, 02nd Floor, Paryavaran Bhawan, CGO Complex New Den: 110003 within fourteen days from the date of publication of this notice with a copy to the Applicant Company at its Registered

30.09.2019

(Unaudited)

7.50

1.63

1.63

1.63

(207.31)

371.35

(0.56)

Fire and on behalf of Diamond Realcon Private Limited

30.09.2020

(Unaudited)

8.30

8,51

8.61

8.51

330.39

308.70

371.35

Six Months Ended

30-Sep-20

Unaudited

14,692.25

(31,304.67)

(31,304.67)

(31,310.39)

(31,202,48)

26,209.53

(52,552.96)

(26,526.71)

4,85,763.75

Nil

(18.44)

(11.95)

(11.95)

Not Applicable

Not Applicable

30-Sep-19

Unaudited

23,534.54

(46,628.35)

(46,628.35)

(46,628.90)

(46,678.86)

26,209.53

21,814.24

47,814.12

5,42,643.12

Nil

11.30

(17.79)

(17.79)

Nil

Not Applicable

Not Applicable

0.83

Any person having objections to issue of duplicate Share Certificates, as mentioned herein above, may sultimit the same in writing, with the Company marked to the enable the Company to change its Rugistered 'Secretarial Department' at its Registered Office or send an email at secretarialho@heromotocorp.com within 7 days from the date of publication of this Office from The National Capital Territory Notice. In the meanwhile, members of the public are hereby cautioned against dealing in the above mentioned Share Certificates. Place : form or cause to be delivered or send by Paryavaran Bhawan, CGO Complex, New

Hitech Propoon Private Limited

₹ in tacs

30.09.2019

(Unaudited)

7.50

1.63

1.63

12.88

(193.24)

371.35

(0.52)

**ASHOK GUPTA** 

(f in Lakhs)

Year Ended

31-Mar-20

Audited

39,876.87

(89,646.77)

(89,646.77)

(89,676.23)

(89,857.38)

26,209.53

(21,344.48)

4,704.62

4,84,914.78

Nil

99.67

(34.22)

(34.22)

Nil

Not Applicable

Not Applicable

Managing Director

( DW 00135288 )

RELIGARE LOANS

In your success lies ours

Company Secretary & Chief Compliance Officer

Hero MotoCorp Limited

Regd. Office: The Grand Plaza, Plot No.2, Nelson Mandela Road, Vasant Kunj - Phase-II. New Delhi - 110970 CIN: L35911DL1984PLC017354 | Phone: 011-46044220

Fax: 011-46044399 | E-mail: secretarialho@heromotocorp.com

PUBLIC NOTICE FOR ISSUE OF DUPLICATE SHARE CERTIFICATES

Members of the general public and existing shareholders of Hero MoloCorp Ltd

('Company') are hereby informed that the Original Share Certificates, details of which

are given hereunder have been reported lost misplaced stolen not received and that

pursuant to requests received from concerned shareholders, the Company intends to

Issue duplicate share certificates in lieu of the said original Share Certificates (Face

Face

Value

Rs.2-

Rs. 10:-

Website: www.heromotocorp.com

Distinctive Nos.

48861866 - 46561915

12496245-12496264

16208655-16206959

20855438 - 20855482

ASHOK VYAS Rs.26 160910871 - 160910880 519215 10

Sahil Michal Khar Date :05.11,2020 Neerja Sharma Managing Wrecto Place: New Delhi

For Hero MotoCorp Ltd.

ASSOCIATED ALCOHOLS & BREWERIES LTD. CIN: L15520MP1989PLC049380

Extract of Unaudited Financial Results for the Quarter

S. No.	Particulars	Quarter Ended 30.09.2020 (Unaudited)	Quarter Ended 30.09.2019 (Unaudited)	Year Ended 31.03.2020 (Audited)
t	Total income from operations	10430.13	12308.13	53827.78
2	Net profit / (loss) for the period (before Tax, Exceptional and / or Extraordinary items)	1768.12	965.34	6.371.66
3	Net profit / (loss) for the period Before Tax, (after Exceptional and / or Extraordinary items)	1768.12	965.34	6.371.66
4	Net profit / (loss) for the period after Tax, (after Exceptional and / or Extraordinary items)	1316.93	1106.12	4933.62
5	Total Comprehensive income for the period (Comprising Profit / Itoss) for the period (after Tax) and other Comprehensive Income (after Tax))	1315.56	1112.68	4839.14
6	Equity Share Capital	1807.92	1807.92	1807.92
7	Reserves (excluding Revaluation Reserves) as shown in the Balance Sheet of previous year			17719.13
8	Earning Per Share (before extraordinary item) (of ₹ 10/- each) Basic:	7.26 7.28	6.12 6.12	27.29 27.29

1. The above is an extract of the detailed format of Standalone Unaudited Financial Results for the Quarter Ended 30th September, 2020 filed with Stock Exchange under Requisition 33 of the SEBI (Listing and Other Discksura Requirements) Regulation, 2015. The full format of the Unaudited Financial Results are available on the website of the Slock Exchanges www1.nseindla.com and www.bseindla.com and on the Companys' website i.e. www.associatedalcohols.com

2. The above results were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their

Piace: Indone

STATEMENT OF REVIEWED UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR

		Six months	Previous	Year
SI. No.	Particulars	ended 30 September 2020 (Unaudited)	six months ended 30 Sept. 2019 (Unaudited)	ended 31 March 2020 (Audited)
1,	Total Income from Operations	13,240,52	10,225.93	22,906.0
2	Other Income	123,90	7.49	84.6
3.	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	3,516.93	3,264.06	6,383.8
4,	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	3,516.93 3,264.06		6,383.8
5.	Net Profil / (Loss) for the period after tex	2,742.91	2,228,91	4691.1
6.	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after lax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	2,742.84	2,232.39	4,690.9
7.	Pakt up Equity Share Capital	4,283.02	4,265.49	4,283.0
87	Reserves (excluding Revaluation Reserve)	83,381.75	77,996.57	80,545.3
9	Nel worth	87,864,77	82,262.06	84,828.3
10.	Paid up Debt Capital / Outstanding Debt	1,28,454.48	72,799.46	93,460,3
11	Earnings Per Share (of Face Value Rs 10/- each) (for continuing and discontinued operations) * -  • Basic:  • Dauted:	6.40° 6.31°	5,23°, 5,14°	10 S
12.	Debenture Redemption Reserve			
13.	Debt Equity Ratio	1.38	0.88	1.
14.	Debt Service Coverage Ratio	0.36	0.62	0.6
	A Common Pale	172	214	1.4

a) The Company is a Housing Finance Company registered with National Housing Bank (the NHB). Haryana-122002.

Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the pertinent disclosures have been made to the Bornbay

Due Date

ISIN Interest: 04 May 2021 INE922K07039 Principal: 04 May 2021 Interest: 30 September 2021 INE922K07047 Principal: 30 October 2020 Interest: 10 November 2020 INE922K07013 Principal: 10 October 2020 Interest: 10 June 2023 INE922K07054 Principal: 10 June 2021

(MD & CEO)

financialexp.epam.in

# क 80 लाख मरोजों ने दो कोरोना महामारो को मात

का हजार से अधिक मरीज पिछले 24 घंटों के दौरान को की हुए ठीक

स्थ्य

की

पुदर

ही प्री

हजार नए मामलों के साथ कुल संक्रमित 86 लाख से अधिक

और मरीजों की महामारी से गई जान, अब तक 1.27 लाख मौतें

गिरक्रर 1.48 फीसद पर आ गई है। समाचार एजेंसी पीटीआइ की तरफ से रात पाने दस बजे जारी टैली के मुताबिक बीते चौबीस घंटों के दौरान 51,088 नए मामले मिले हैं, 64,192 मरीज ठीक हुए हैं और 710 मरीजों की मौत हुई है। इसके साथ ही कुल संक्रमितों का आंकड़ा 86.25 लाख और ठीक हुए मरीजों की संख्या 80.02 लाख हो गई है। अब तक 1,27,453 मरीजों की जान भी जा चुकी है।

वहीं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से सुबह आठ बजे जारी आंकड़ों के मुताबिक कुल संक्रमितों की संख्या

85.91 लाख, ठीक हो चुके मरीजों का आंकड़ा 79.59 लाख और मृतकों की संख्या 1.27 लाख हो गई है। सक्रिय मामलों लगभग पांच लाख हैं, जो कुल मामलों का 5.88 फीसद है।

सोमवारको 10.43 लाख कोरोना टेस्ट : भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के मृताबिक कोरोना संक्रमण का पता लगाने के लिए सोमवार को 10.43 लाख नमुनों की जांच की गई। परिषद के मुताबिक अब तक 11.96 करोड़ नसूनी का परीक्षण किया जा चुका है।


CIN: L15520MP1989PLC049380

Regd Office: 4th Floor, BPK Star Tower, A.B. Road, Indore - 452008 (M.P.) E-mail: investorrelations@aabi.in Website: www.associatedalcohols.com, Ph. 9731-4780400











## Extract of Unaudited Financial Results for the Quarter and Half Year Ended 30th September, 2020

(tin Lacs)

S. No.	Particulars	Quarter Ended 30.09.2020 (Unaudited)	Quarter Ended 30.09.2019 (Unaudited)	Year Ended 31.03.2020 (Audited)
1	Total Income from operations	10430.12	12308.13	53827.78
2	Net profit / (loss) for the period (before Tax, Exceptional and / or Extraordinary items)	1768.12	965.34	6,371.66
3	Net profit / (loss) for the period Before Tax, (after Exceptional and / or Extraordinary items)	1768.12	965.34	6,371.68
4	Net profit / (loss) for the period after lax, (efter Exceptional and / or Extraordinary Items)	1316.93	1106,12	4933.62
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (loss) for the period (after Tax) and other Comprehensive Income (after Tax))	1315.66	1112.68 1807.92	4839.14 1807.92
6 7	Equity Share Capital  Reserves (excluding Revaluation Reserves)  Reserves (excluding Revaluation Reserves)	1807.92		17719.13
8	Earning Per Share (before extraordinary item)  (of ( 10/- each)  Basic:  Diluted:	7,28 7,28	6.12 6.12	27.29 27.29

1. The above is an extract of the detailed format of Standalone Unaudited Financial Results for the Quarter Ended 30th September, 2020 filed with Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulation, 2015. The full format of the Unaudited Financial Results are available on the website of the Stock Exchanges wwwf.nseindla.com and www.bseindla.com and on the Companys'

2. The above results were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their For: Associated Alcohols & Breweries Ltd. meeting held on 10th November, 2020.

Place: Indore Date: 10.11.2020 Tushar Bhandarl, Whole Time Director DIN: 03583114

ENPRENCY

